



# सुरक्षित तरीके से यात्रा करें

परिवहन संचालकों और उनके कर्मचारियों  
के किसी भी निर्देश का पालन करें।



**अपनी यात्रा को ट्रैक करें  
(का ब्योरा रखें)**

आधिकारिक संपर्क ट्रेसिंग ऐप का  
उपयोग करके स्कैन करें; या आप जिस  
परिवहन सेवा में हैं उसके नम्बर पर ध्यान  
दें, आप कब और कहां उसमें सवारी के  
लिए चढ़े थे और आज आप कहां बैठे हैं।




**अपनी दूरी बनाए रखें**

दूसरों को जगह दें और अपनी  
परिवहन सेवा में कहां बैठना है इस बारे  
में किसी भी निर्देश का पालन करें।




**अपनी फेस कवरींग को पहन लें**

पूरी यात्रा के दौरान अपनी फेस कवरींग  
को पहन कर रखें और इसे या अपने चेहरे  
को छूने से बचें। अपनी डिस्पोजेबल (एक  
बार प्रयोग की जाने वाली) फेस कवरींग  
को एक कूड़ेदान में फेंक दें या अपनी  
दुबारा प्रयोग की जाने वाली फेस  
कवरींग को प्रत्येक उपयोग के  
बाद गर्म पानी में धो लें।



**अच्छी स्वच्छता का पालन करें**

नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन  
से धोएं और फिर सूखा लें, या हैंड  
सैनिटाइजर का उपयोग करें।  
अपनी कोहनी में खांसे या छींके।




**अगर आप बीमार हैं  
तो घर पर ही रहें**

अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं,  
तो यात्रा न करें।


# सुरक्षित तरीके से यात्रा करें

परिवहन संचालकों और उनके कर्मचारियों  
के किसी भी निर्देश का पालन करें।



**अपनी यात्रा को ट्रैक करें  
(का ब्योरा रखें)**

आधिकारिक संपर्क ट्रेसिंग ऐप का  
उपयोग करके स्कैन करें; या आप जिस  
परिवहन सेवा में हैं उसके नम्बर पर ध्यान  
दें, आप कब और कहां उसमें सवारी के  
लिए चढ़े थे और आज आप कहां बैठे हैं।




**अपनी दूरी बनाए रखें**

दूसरों को जगह दें और अपनी  
परिवहन सेवा में कहां बैठना है इस बारे  
में किसी भी निर्देश का पालन करें।




**अपनी फेस कवरींग को पहन लें**

पूरी यात्रा के दौरान अपनी फेस कवरींग  
को पहन कर रखें और इसे या अपने चेहरे  
को छूने से बचें। अपनी डिस्पोजेबल (एक  
बार प्रयोग की जाने वाली) फेस कवरींग  
को एक बंद ढक्कन वाले कूड़ेदान में फेंक  
दें या अपनी दुबारा प्रयोग की जाने वाली  
फेस कवरींग को प्रत्येक उपयोग  
के बाद गर्म पानी में धो लें।



**अच्छी स्वच्छता का पालन करें**

नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन  
से धोएं और फिर सूखा लें, या हैंड  
सैनिटाइजर का उपयोग करें।  
अपनी कोहनी में खांसे या छींके।




**अगर आप बीमार हैं  
तो घर पर ही रहें**

अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं,  
तो यात्रा न करें।


# सुरक्षित तरीके से यात्रा करें

परिवहन संचालकों और उनके कर्मचारियों  
के किसी भी निर्देश का पालन करें।



**अपनी यात्रा को ट्रैक करें  
(का ब्यौरा रखें)**

आधिकारिक संपर्क ट्रेसिंग ऐप का  
उपयोग करके स्कैन करें; या आप जिस  
परिवहन सेवा में हैं उसके नम्बर पर ध्यान  
दें, आप कब और कहां उसमें सवारी के  
लिए चढ़े थे और आज आप कहां बैठे हैं।




**अपनी दूरी बनाए रखें**

दूसरों को जगह दें और अपनी  
परिवहन सेवा में कहां बैठना है इस बारे  
में किसी भी निर्देश का पालन करें।




**अपनी फेस कवरींग को पहन लें**

पूरी यात्रा के दौरान अपनी फेस कवरींग  
को पहन कर रखें और इसे या अपने चेहरे  
को छूने से बचें। अपनी डिस्पोजेबल (एक  
बार प्रयोग की जाने वाली) फेस कवरींग  
को एक बंद ढक्कन वाले कूड़ेदान में फेंक  
दें या अपनी दुबारा प्रयोग की जाने वाली  
फेस कवरींग को प्रत्येक उपयोग  
के बाद गर्म पानी में धो लें।



**अच्छी स्वच्छता का पालन करें**

नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन  
से धोएं और फिर सूखा लें, या हैंड  
सैनिटाइजर का उपयोग करें।  
अपनी कोहनी में खांसे या छींके।



**अगर आप बीमार हैं  
तो घर पर ही रहें**

अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं,  
तो यात्रा न करें।